

**E-Stamp Receipt Number :**

**GRN Number :**

	कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तंर्जनी	अंगुठा

	कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तंर्जनी	अंगुठा

	कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तंर्जनी	अंगुठा

	कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तंर्जनी	अंगुठा

यह विक्रय – पत्र आज दिनांक ..... / ..... / 2024 ई०

को इस प्रकार सम्पन्न होता है ।

(1) बिक्रेता का नाम एवं पूरा पता :- रुद्रा सिंडीकेट प्रोजेक्ट्स प्रा०

लि० (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी), निबंधन सं०-

U45400JH2011PTC014623, PAN –

AAFRCR1159K, निबंधन कार्यालय – हनुमान मंदिर

के निकट, हटिया चौक, थाना – जगरनाथपुर, जिला –

राँची द्वारा ऋषि कांत मिश्रा (डायरेक्टर), पिता – श्री

अनिल कुमार मिश्रा, धर्म – हिन्दू, जाति – ब्राह्मण,

पेशा – बिल्डर, निवासी – मिश्रा टोला, ग्राम + पो० –

टुण्डी, जिला – धनबाद, झारखण्ड, (UID: - 5845

7882 1190, Mob : - 8002232441) भारतीय

नागरिक

.....प्रथम पक्ष

(2) क्रेता का नाम

एवं पूरा पता :-

(3) जमीन मालिकों का नाम एवं पूरा पता :- (1) विकल्प

कुमार (VIKALP KUMAR) जन्मतिथि-  
25.12.1993, पिता- स्व० कमल कुमार मिश्रा,  
दादा- राम दुलारे मिश्रा, पेशा- व्यापार, जाति-  
ब्राह्मण, धर्म-हिन्दु, निवासी- नन्दन इन्क्लेव के  
सामने, गुरुद्वारा रोड़, हटिया, पोस्ट-हटिया,  
थाना-जगरनाथपुर, जिला- रांची, राज्य-  
झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

UID No.-6909 9710 6538,

PAN - EQYPK3510D, MOB-7903424743

(2) जितेन्द्र मिश्रा (JITENDRA MISHRA),

जन्मतिथि-07.12.1977, पिता- राम दुलारे  
मिश्रा, दादा- स्व० तप्सी मिश्रा, पेशा- व्यापार  
जाति-ब्राह्मण, धर्म-हिन्दु, निवासी- नन्दन  
इन्क्लेव के सामने, गुरुद्वारा रोड़, हटिया, पोस्ट-

हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, राज्य-  
झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

UID No. - 7244 4874 4643,

PAN - ANYPM9120F, MOB -7281964303

**(3) रेणु देवी (RENU DEVI) जन्मतिथि-**

10.04.1982, पति- स्व० मिथिलेश कुमार  
मिश्रा, पिता- अमरेश पांडे, दादा- स्व० महेन्द्र  
पाण्डे, पेशा- गृहिणी, जाति-ब्राह्मण, धर्म-हिन्दु,  
निवासी- नन्दन इन्क्लेव के सामने, गुरुद्वारा  
रोड़, हटिया, पोस्ट-हटिया, थाना-जगरनाथपुर,  
जिला-रांची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

UID No. - 6987 2784 5668,

PAN – GRMPD5713E, MOB-9031912005

**(4) जैनब जबीन (ZAINAB JABEEN)**

जन्मतिथि- 02.04.1985, पति- मोहित मिश्रा,  
पिता जहिर आलम, दादा स्व० करीम अंसारी,  
जाति-मोमिन, धर्म-हिन्दु, पेशा-गृहिणी, निवास  
स्थान- नन्दन इन्क्लेव के सामने, गुरुद्वारा रोड़,  
हटिया, पोस्ट-हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-  
रांची, राज्य-झारखण्ड, भारतीय नागरिक ।

UID No.-8351 9555 1612

PAN- ALXPJ99731, MOB-9304970065

.....तृतीय पक्षगण

- (4) लेख्य प्रकार :- विक्रय पत्र (हमेशा के लिए)
- (5) प्रतिफल राशि :-
- (6) लगान पानेवाला :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल  
पदाधिकारी, नामकुम अंचल, राँची

सन्दर्भ :-

विदित हो कि खाता नं०- 98, प्लॉट नं०-1008 की भूमि आर० एस० खतियान में नथुनी उपाध्याय वल्द रामदेनी उपाध्याय वो गीरीजा उपाध्याय वल्द नथुनी उपाध्याय कौम ब्राह्मण शाकीन देह बहीशे बराबर काएमी दर्ज है।

विदित हो कि उक्त वर्णित भूमि 1. कमल कुमार मिश्रा 2. मिथिलेश कुमार मिश्रा वो 3. जितेन्द्र कुमार मिश्रा तीनों के पिता राम दुलारे मिश्रा की खरीदगी भूमि है जिसे इन्होंने खतियानी रैयत के वंशज बैकुण्ठ नाथ उपाध्याय, नागेन्द्र नाथ उपाध्याय दोनों के पिता स्वर्गीय नथुनी प्रसाद उपाध्याय से दिनांक 31.08.1981 ई० को रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीद कर

प्राप्त किए हैं जिसका बुक नं०-1, भोलूम नम्बर-36, पेज नम्बर-179 से 183, डीड नम्बर-9462 है जो जिला अवर निबंधन कार्यालय, रांची में दर्ज है तथा खरीदगी की तारीख से ही 1. कमल कुमार मिश्रा 2. मिथिलेश कुमार मिश्रा वो 3. जितेन्द्र कुमार मिश्रा उक्त 15 डिसमिल जमीन पर शान्तिपूर्ण काबिज वो दखलकार रहे एवं अपने नाम से नामकुम अंचल से दाखिल खारीज करवाए जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या-8आर27/1982-83 है एवं मालगुजारी रसीद नामकुम अंचल से निर्गत होता आ रहा है जिसका रसीद संख्या-0865880898 है जो वर्ष 2018-2019 तक निर्गत है एवं अंचल कार्यालय के पंजी-II के भोलूम V के पेज नम्बर-48 में दर्ज है।

विदित हो कि कमल कुमार मिश्रा अपने पीछे एकमात्र पुत्र विकल्प कुमार (लेख्यकारी संख्या-1) को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। मिथिलेश कुमार मिश्रा अपने पीछे अपनी पत्नी रेणु देवी (लेख्यकारी संख्या-3) को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए एवं जितेन्द्र मिश्रा (लेख्यकारी संख्या-2) है।

विदित हो कि 1. विकल्प कुमार पिता स्व० कमल कुमार मिश्रा 2. जितेन्द्र मिश्रा पिता राम दुलारे मिश्रा वो 3. रेणु देवी पति स्व० मिथिलेश कुमार मिश्रा ने अपने-अपने हक वो हिस्से की भूमि में से 3.75 डिसमिल

भूमि को जैनब जबीन (लेख्यकारी संख्या-4) के साथ एक विक्रय पत्र रजिस्ट्री के द्वारा दिनांक-29.11.2018 ई० को बिक्री कर दिये, जो बुक नं०-1, भोलूम नं०-219, पेज नं०-345 से 292, दस्तावेज नं०-2525/2415, वर्ष-2018 ई० जो निबंधन कार्यालय राँची शहरी क्षेत्र-2 में निबंधित है। तथा जैनब जबीन (लेख्यकारी संख्या-4) खरीदगी के पश्चात् अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या- 5159/आर27 2018-2019 दिनांक 05.02.2019 ई० है एवं जमाबंदी रजिस्टर-II के भोल्यूम नं०-29, पेज नं०-2 में जमाबंदी दर्ज है जिसका अद्यतन लगान रसीद संख्या- 0001692108 दिनांक 09.02.2019 ई० है।

विदित हो कि 1. विकल्प कुमार पिता स्व० कमल कुमार मिश्रा 2. जितेन्द्र मिश्रा पिता राम दुलारे मिश्रा वो 3. रेणु देवी पति स्व० मिथलेश कुमार मिश्रा ने उक्त विक्रय के बाद बचे हुए 11.25 डिसमिल भूमि का अपने नाम से अंचल कार्यालय नामकुम में दाखिल खारिज करवा लिये जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या- 4182/आर27 2019-2020 दिनांक 27.11.2019 ई० है एवं जमाबंदी रजिस्टर-II के भोल्यूम नं०-30, पेज

नं०-60 में जमाबंदी दर्ज है जिसका अद्यतन लगान रसीद संख्या-0814676413 दिनांक 29.11.2019 ई० है।

विदित हो कि उक्त भूमि का होलिंग रांची नगर निगम रांची से करवाया जा चुका है जिसका होलिंग नं०- 0530002438000A1 है जो रांची नगर निगम रांची के वार्ड नं०-53 में पड़ता है।

विदित हो कि उपरोक्त लेख्यकारी / जमीन मालिक अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज यो दखलकार चले आ रहे हैं।

इस तरह प्रथम पक्षकारगण उक्त भूमि के मालिक एवं स्वामी है एवं उसपर शांतिपूर्वक काबिज वो दखलकार चले आ रहे हैं एवम् चूंकि विकासकर्ता / प्रमोटर के अनुरोध पर सभी पक्षकार संयुक्त रूप से मिलकर प्रथम अनुसूची में दर्ज अपनी उपरोक्त भूमि को एक साथ मिलाकर विकास करने की अनुमति दी। विकासकर्ता / प्रमोटर उपरोक्त भूमि पर राँची नगर निगम, रांची द्वारा भवन वाद सं० RMC/BP/0023/WS3/2018 Dated 03.01.2019 के अनुरूप उक्त जमीन पर बहुमंजिली इमारते बनायेगे जिसका नाम श्री राम हाईट्स होगा।

एवम् चूंकि जमीन मालिक द्वारा अपनी उपरोक्त जमीन उन्हें विकास हेतु सौपने के बदले विकासकर्ता ने जमीन मालिक को नव-निर्मित बहुमंजिली इमारत का हिस्सा (जिस मालिकाना आवंटन के नाम से जाना जाएगा) दिया। उक्त निर्मित भवन का बाकी हिस्सा विकासकर्ता का

आवंटन के नाम से जाना जाएगा ताकि वे अपनी शतों पर अपने मनचाहे संभावित ग्राहकों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा इसमें जमीन मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

और यह भी विदित हो कि बिक्रेता अपने हिस्से की अनुसूची 'ग' में वर्णित फ्लैट नम्बर ....., ..... तल्ला, श्री राम हार्ट्स सुपर बिल्ट अप एरिया ..... वर्गफीट एवं पार्किंग संख्या पी/ ..... सहित को बिक्री करना चाहते हैं तथा क्रेता भी उक्त फ्लैट को उचित मूल्य ...../- (.....) रूपये मात्र में खरीदना चाहते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता ने उक्त फ्लैट की बिक्री के लिये एक एकरानामा पत्र का निष्पादन किये हैं।

और यह भी विदित हो कि क्रेता ने उक्त सम्पत्ति के खरीदने से पूर्व उससे सम्बंधित कागजातों जैसे जमीन का खतीयान, म्यूटेशन, टाइटल, डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, पारित नक्शा आदि का उचित जाँच कर लिये हैं तथा सभी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात ही फ्लैट को खरीद रहे हैं।

**यह बिक्रय पत्र निम्न तथ्यों का गवाह है :-**

1. यह कि बिक्री के लिये किये उक्त एकरारनामा पत्र के अनुसार फ्लैट नम्बर ....., ..... तल्ला, श्री राम हार्ट्स सुपर बिल्ट अप एरिया ..... वर्गफीट एवं पार्किंग संख्या पी/ ..... सहित तथा जमीन का अविभाजित अंश

..... वर्गफीट जमीन के साथ क्रेता ...../-  
(.....) रूपये मात्र में बिक्रेता से खरीद रहे हैं और बिक्रेता भी क्रेता से पूरा पैसा प्राप्त कर लिये है, जिसकी प्राप्ति रसीद इस बिक्रय पत्र के द्वारा स्वीकार की जाती है तथा भुगतान की कई राशि का पूर्ण विवरण निचे अनुसूची में पूर्ण रूप से उल्लेखित है तथा आज तारिख से ही बिक्रेता/ डेभलेपर बिक्रीगत सम्पत्ति का पूर्ण कब्जा, अधिकार, साख तथा हक क्रेता को हस्तांतरित करते है।

2. यह कि बिक्रेता ने क्रेता को उक्त सम्पत्ति के साथ बिलडिंग के कॉमन सुविधाओं को उपभोग करने का अधिकार देते है, जिसका पूर्ण विवरण निचे अनुसूची 'घ' में किया गया है।
3. यह कि क्रेता के लिये यह जरूरी होगा कि वह श्री राम हाईट्स ऑनर एसोसिएशन के सदस्य उचित सदस्यता शुल्क देकर जो ऑनर एसोसिएसन तय करेगा, देकर बनना होगा, जिसके लिये क्रेता उक्त रकम चेक के द्वारा ऑनर एसोसियेशन के खाता में जमा करेंगे।
4. यह कि क्रेता उक्त बिलडिंग के रख-रखाव के लिये जो मेनटेनेस चार्ज होगा जो कि ऑनर एसोसियेशन के द्वारा तय किया जायेगा उचित समय पर भुगतान करेंगे तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे, भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में ऑनर एसोसियेशन को हक होगा कि जो भी सार्वजनिक सुविधायें क्रेता को उपलब्ध है उसे प्रतिबंधित कर दिया जायेगा, जिसमें कि लिफ्ट, जेनरेटर, पानी सप्लाई वगैरह सामिल है।

5. यह कि क्रेता को ऑनर एसोसियेशन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना होगा ।
6. यह कि क्रेता का अधिकार वो हक उसके द्वारा खरीदे गये फ्लैट और पार्किंग स्थल जो कि निचे अनुसूची 'ख' में दर्शाया गया है उसपर ही रहेगा तथा उसे यह भी अधिकार होगा कि वे भविष्य में उक्त सम्पत्ति को किसी को बिक्री, दान, लीज, बंधक, वसीयत आदि कर सकते है, इसपर बिक्रेता अथवा अन्य किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
7. यह कि क्रेता को यह पूर्ण अधिकार है कि वे अपने नाम से राँची नगर निगम, राँची तथा अँचल अरगोडा, राँची में अपना नाम का दाखिल खारीज करा लेंगे तथा प्रतिवर्ष टैक्स तथा लगान देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे।
8. यह कि क्रेता इस बिलडिंग के वास्तविक निर्मित मूल ढाँचे में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे तथा किसी भी प्रकार का क्षति नहीं करेंगे तथा समय - समय पर रंग-रोगन का कार्य कराते रहेंगे।
9. यह कि क्रेता को यह अधिकार होगा कि वे बिलडिंग के सीढी, लिफ्ट, कॉमन एरिया का उपभोग करेंगे, परंतु इस पर कभी भी अपना हक, दावा वे स्वामित्व स्थापित नहीं करेंगे और ना ही उसका अतिक्रमण करेंगे।

10. यह कि क्रेता को बिलडिंग के छत पर कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही उसपर किसी प्रकार का निर्माण कर सकेंगे, परंतु वे छत के सुखाधिकार का उपभोग कर सकेंगे ।
11. यह कि क्रेता को अपने फ्लैट को छोडकर किसी अन्य के फ्लैट पर कोई अधिकार नहीं होगा।
12. यह कि क्रेता उपरोक्त फ्लैट का उपयोग आवासीय कार्य के लिये करेंगे।

अनुसूची 'क'(भूमि का विवरण)

रकवा 15 डिसमील कमोबेश जमीन पर श्री राम हाईट्स के नाम पर बिलडिंग का निर्माण किया गया है, जिसका नक्शा सक्षम प्राधिकार के द्वारा पूर्ण रूप से पारित किया गया है, जिसका भवन वाद सख्या ..... दिनांक ..... ई० है जो सीढी, पानी टैंक तथा अन्य सारी सुविधायों से युक्त है, जो मौजा हटिया, नियर नन्दन इन्कलेव, गुरुद्वारा रोड, हटिया, थाना नम्बर 248, हाल थाना जगरनाथपुर, वार्ड न०- 53, होल्लिंग न०- 0530002438000A1, जिला राँची, में अवस्थित है जिसका खाता नम्बर 98, सर्वे प्लॉट नम्बर 1008 पर बना है जो अन्दर अधिकारिता कलेक्टर, राँची तथा जिला अवर निबंधक, राँची के है :-

उत्तर :- सब प्लॉट नम्बर 1008/पार्ट (राम सुरेश शर्मा)

दक्षिण :- सहायक रोड

पूरब :- सब प्लॉट नम्बर 1008/पार्ट (लाल बिहारी साहू)

पश्चिम :- सब प्लॉट नम्बर 1008/पार्ट (गोविन्द राय)

अनुसूची 'ख'

(बिक्रीगत फ्लैट का विवरण)

अनुसूची 'क' में वर्णित जमीन में निर्मित बिल्डिंग श्री राम हाईट्स के  
..... तल्ला में फ्लैट नम्बर ..... अवस्थित है तथा  
बिक्रीगत फ्लैट को लाल रंग से रंगकर संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है, जो  
इस बिक्रय पत्र का अभिन्न अंग है, साथ ही एक कार पार्किंग नं.पी/  
..... का क्षेत्र ग्राउण्ड फ्लोर में दिया गया है :-

फ्लैट की चौहद्दी

उत्तर :-

दक्षिण :-

पूरब :-

पश्चिम :-

अनुसूची 'ग'

(कॉमन एरिया)

1. बिलडिंग का कॉमन पार्किंग क्षेत्र, कॉमन रास्ता, पेसैज, ड्राईभ एवं मुख्य प्रवेश द्वार सभी के लिये कॉमन एरिया है।
2. बिलडिंग के ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित सेक्युरिटी/गार्ड रूग, कॉमन बाउण्ड्री वाल एवं मेन गेट कॉमन एरिया है।
3. बिलडिंग के सारे ड्रेनेज एवं स्वीरेज एवं सभी पाईप एवं फोटींग्स (जो किसी खास फ्लैट के लिये या उनके निजी उपयोग के लिये लगाये गये है को छोडकर) सभी कॉमन होंगे।
4. बिलडिंग में लगाये गये सभी इलेक्ट्रीकल वायरिंग एवं अन्य फिटींग्स (जो किसी खास फ्लैट के लिये या उनके निजी उपयोग के लिये लगाये गये है को छोडकर) जिसमें कम धारिता वाले या अधिक धारिता वाले इलेक्ट्रीकल इन्सटरूमेंट एवं उसके कमरे (यदि हो) ट्रांसफरमर (यदि हो) कॉमन होंगे।
5. बिलडिंग के सीढी, पेसैज, प्रत्येक तल्ले पर पडने वाले लैंडिंग या मिडलैंडिंग भाग कामन होंगे।
6. बिलडिंग के लिफ्ट, जेनरेटर तथा प्रत्येक तल्ले के लाबी कामन होंगे।
7. बिलडिंग के क्षेत्र में स्थापित डीप ट्यूब वेल, लिफ्ट एवं जेनरेटर कॉमन होंगे।

8. बिलडिंग में लगाये गये वाटर पम्प, वाटर टैंक एवं सभी कामन पलमबिंग (जो किसी खास प्लैट के लिये या उनके निजी उपयोग के लिये लगाये गये है को छोडकर) कॉमन होंगे।
9. बिलडिंग के छत (ROOF) पर किसी भी प्लैट मालिक का अधिकार नहीं होगा परंतु वे छत का लाभ ले सकेंगे।
10. बिलडिंग के वे सभी भाग, क्षेत्र, लगाये गये सामान जो कॉमन उद्देश्य के लिये है सभी के लिये कॉमन एरिया रहेंगे।

### भुगतान राशि का विवरण

डेभलपर (बिक्रेता) ने प्लैट की बिक्री के एवज में क्रेता से ...../-  
(.....) रुपये मात्र प्राप्त कर लिये है।

भवन के संबंध में का विवरण

- 1) क्या, कच्चा है या, पक्का :- पक्का
- 2) यदि पक्का है तो खपरैल या प्रचलित कंक्रीट का :- कंक्रीट का
- 3) मंजिलों की संख्या :-
- 4) फ्लैट नं. .... जो श्री राम हाईट्स के ..... तल्ला में है जिसका क्षेत्रफल :- ..... वर्गफीट
- 5) निर्माण वर्ष :- 20.....-20.....
- 6) भवन की स्वच्छता, बिजली संबंधी और अन्य फिटिंग के प्रकार और गुणवत्ता संक्षिप्त वर्णन :- साधारण
- 7) क्षेत्र जहाँ भवन निर्मित है और उनका आवासीय/व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग :- आवासीय
- 8) यदि किराया पर लगा हो तो उसका मासिक किराया :- नहीं
- 9) मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन हेतु सम्पत्ति का मूल्य :-  
 क) फ्लैट नम्बर ..... ब्लॉक ..... का मूल्य (.....वर्गफीट) :-  
 ख) अविभाजित जमीन का अंश (..... वर्गफीट) का मूल्य :-

कुल मूल्य =

**प्रमाण - पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं हैं न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है न ही भूदान की जमीन है। वन सीमा से बाहर है तथा बी. सी. सी. एल. या ई. सी. एल. की भी जमीन नहीं है और न ही आदिवासी से सम्बन्धित है। जमीन सिलिंग से मुक्त है, जमीन पर मठ, मंदिर, मस्जिद या गिरजा नहीं है, तथा मसना, सरना, पहनई, हडगडी की जमीन नहीं है। जमीन भूमि घोटाला, पशुपालन घोटाला से संबंधित नहीं है। यह सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में बंधक नहीं है। बिक्रीगत भूमि गैर मजरूआ आम/ गैर मजरूआ खास/कैसेरे हिन्द/ किसी सरकारी विभाग के लिये अर्जित भूमि से संबंधित नहीं है।

बिक्रेता सी० एन० टी० एक्ट, 1908 की धारा 46 (b) के प्रयोजन हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के सदस्य नहीं है।

यह कि सभी प्रस्तुत तथ्य एवं दस्तावेज जो निबंधनार्थ उपस्थापित किये गए है स्वेच्छा से किये गये है एवं सही है गलत होने पर समस्त जवाबदेही निबंधनार्थ आये पक्षकारों की होगी।

**E-Stamp Receipt Number :**

**GRN Number :**

बिक्रेता इस पूर्ण बिक्रय – पत्र को पढकर समझ बुझ लिए हैं तथा ठीक  
पाकर अपना हस्ताक्षर करके निबंधित कर देते हैं ताकि समय पर काम  
आवे ।

आज दिनांक ..... / ..... / 2024 ई०, स्थान राँची ।

गवाहों का हस्ताक्षर

1:-

बिक्रेता का हस्ताक्षर

2:-

E-Stamp Receipt Number :

GRN Number :

क्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं

बाएँ हाथ की पाँचों अँगुलियों का निशान

	कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है तथा बाँये हाथ की पाँचों अँगुलियों का नशान मेरे सानने या मेरे द्वारा लिया गया है।

ड्राफ्टकर्ता का हस्ताक्षर :-